



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt.ofHaryana

No. 194-2018/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2018 (KARTIKA 25, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

शुद्धिपत्र

दिनांक 16 नवम्बर, 2018

**संख्या 18/61/2018-3क1.-** हरियाणा नगर निगम वार्ड परिसिमन नियमावली, 1994 के नियम-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 18/61/2018-3क1 दिनांक 16.08.2018 के सन्दर्भ में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नगर निगम, करनाल के वार्ड नं० 01, 18 व 20 की सीमाओं को घोषित करते हैं, जो निम्न अनुसार पढ़ी जायें :-

**वार्ड नं० 01 :-** बिन्दू 'ए' आयत संख्या 3 झंझाड़ी गाँव की उत्तरी सीमा तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 की पूर्वी सीमा जोकि झंझाड़ी गाँव के पास नगर निगम, करनाल की सीमा के साथ स्थित है, से आरम्भ होकर तत्पश्चात् पूर्व की ओर से गाँव झंझाड़ी की उत्तरी राजस्व सीमा के साथ-साथ पश्चिमी यमुना नहर के पश्चिमी कोने पर बिन्दू 'बी' तक, इसके पश्चात दक्षिण की ओर पश्चिमी यमुना नहर की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दू 'सी' पर स्थित रैगुलेटर हैड ओएसिस कॉम्प्लैक्स के साथ तक, इसके पश्चात पश्चिमी यमुना नहर को पार करते हुए बुढाखेड़ा माईनर की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दू 'डी' तक जोकि गाँव टीकरी हदबस्त नं० 3 की आयत नं० 28 की दक्षिणी सीमा पर मिलती है, इसके पश्चात पूर्व की ओर आयत नं० 40, 39, 38, 37, 36 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ गाँव टीकरी की दक्षिणी राजस्व सीमा अर्थात् बिन्दू 'ई' तक, इसके पश्चात पूर्व की ओर टीकरी गाँव की दक्षिणी राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दू 'एफ' तक जोकि गाँव टपराना हदबस्त नं० 1, गाँव दनियालपुर की हदबस्त नं० 72 व गाँव कैलाश हदबस्त नं० 2 तक की राजस्व सीमाओं का तिराहा बिन्दू है, इसके पश्चात दक्षिण की ओर गाँव कैलाश हदबस्त नं० 2 की उत्तरी सीमा के साथ उस बिन्दू तक जहां यह बरसाती नाला गाँव मंगलपुर को मिलाती है, इसके पश्चात पश्चिम की ओर प्रीतम नगर की उत्तरी सीमा के साथ-साथ उस बिन्दू तक जहां पर यह ओ.पी.एस. इन्टरनैशनल स्कूल नजदीक आर.के. पुरम् की पूर्वी भुजा से मिलती है, इसके पश्चात दक्षिण की ओर प्रीतम नगर व आर.के. पुरम् को विभाजित करने वाली सड़क के साथ उस बिन्दू तक जोकि जे.के. ग्लास फाईबर के विपरीत स्थित है, इसके पश्चात पश्चिम की ओर आर.के. पुरम् की उत्तरी सीमा के साथ उस बिन्दू तक जोकि मकान नं० 108 कृष्ण कुन्ज नजदीक शक्ति पुरम् के विपरीत स्थित है, इसके पश्चात उत्तर-पश्चिम की ओर बन्द रजबाहे की दक्षिण सीमा के साथ जोकि शक्ति पुरम् की उत्तरी सीमा पर स्थित है से होकर उस बिन्दू तक जहां यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 से गाँव कैलाश की ओर जाने वाली सड़क पर मिलती है, इसके पश्चात दक्षिण की ओर उपरोक्त सड़क के साथ उस बिन्दू तक जहां राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 नजदीक विकास पैलेस बसन्त विहार कॉलोनी पर मिलती है, इसके पश्चात उत्तर-पश्चिम की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 की पूर्वी दिशा के साथ लिबर्टी चौक को पार करते हुए पश्चिमी यमुनानहर से होकर गाँव झंझाड़ी के पलाईओवर के आरम्भ होने के बिन्दू तक, इसके पश्चात पश्चिम की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 को पार करके शमशान घाट नजदीक इन्दिरा विकास कॉलोनी की उत्तरी सीमा के साथ उस बिन्दू तक जहां यह रेलवे क्वार्टर नजदीक रेलवे स्टेशन भैनी खुर्द की उत्तरी सीमा पर मिलती है, इसके पश्चात उत्तर की ओर रेलवे लाईन की पूर्वी सीमा के साथ गाँव झंझाड़ी की आयत संख्या 28 तक, इसके पश्चात उत्तर की ओर गाँव झंझाड़ी की पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के बिन्दू 'ए' तक जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

**सम्मिलित क्षेत्र:-**

गाँव बलडी, झंझाडी, कैलाश, उचानी, मंगलपुर व कॉलोनियां बसन्त विहार, इन्दिरा विकास कॉलोनी, सैक्टर-28, 28-ए, 29, लोधी कॉलोनी, ओसिस रिजोर्ट, बलजीत एन्क्लेव, अल्फा सिटी, एन०बी.ए.जी.आर.

**वार्ड नं० 18 :-** रेलवे लाईन की पश्चिमी सीमा जहां यह नजदीक सूक्ष्म तरंग केन्द्र कैथल रोड पर मिलती है से आरम्भ होकर दक्षिण की ओर रेलवे लाईन की पश्चिमी सीमा के साथ रमेश आईस फैक्टरी तक, इसके पश्चात उत्तर-पश्चिम की ओर गली नं० 1 शिव कॉलोनी के साथ इन्डियन ऑयल पम्प कैथल रोड तक, इसके पश्चात दक्षिण-पश्चिम की ओर कैथल रोड पर चौधरी सीमेन्ट स्टोर के सामने तक, इसके पश्चात पश्चिमी यमुना नहर पार करके दक्षिण की ओर पश्चिमी यमुना नहर के किनारे उस बिन्दू तक जहां यह नगर निगम, करनाल की सीमा पर मिलती है, इसके पश्चात पश्चिम की ओर नगर निगम, करनाल की सीमा के साथ घोघड़ीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी बिन्दू 'एन' पर मिलती है जोकि गाँव घोघड़ीपुर व कस्बा करनाल की राजस्व सीमाओं का मिलान बिन्दू है, इसके पश्चात उत्तर की ओर घोघड़ीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी की पूर्वी सीमा के साथ उस बिन्दू तक जहां यह भाखड़ा कैनाल पर मिलती है, इसके पश्चात दक्षिण-पूर्व की ओर भाखड़ा कैनाल की दक्षिणी सीमा के साथ, पश्चिमी यमुना नहर पार करके, इसके पश्चात उत्तर की ओर पश्चिमी यमुना नहर के पूर्वी किनारे के साथ शिव मन्दिर तक, इसके पश्चात पूर्व की ओर ज्योति नगर, प्रेम कॉलोनी, प्रेमनगर की उत्तरी सीमा के साथ उस बिन्दू तक जहां यह रामनगर व प्रेमनगर को विभाजित करने वाली सड़क नजदीक नवयुग पब्लिक स्कूल पर मिलती है, इसके पश्चात दक्षिण-पूर्व की ओर उपरोक्त सड़क पर उस बिन्दू तक जहां यह सड़क कैथल रोड नजदीक हिन्द चिकन कॉर्नर पर मिलती है, इसके पश्चात उत्तर-पूर्व की ओर कैथल रोड पर उस बिन्दू तक जहां यह रेलवे लाईन की पश्चिमी सीमा नजदीक सूक्ष्म तरंग केन्द्र कैथल रोड पर मिलती है जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

**सम्मिलित क्षेत्र:-**

प्रेमनगर, ज्योति नगर, यमुना विहार, जिला जेल, बालाजी कॉलोनी, एकता कॉलोनी, गुरुनानक पुरा, प्रेम कॉलोनी, मान कॉलोनी, डेहा बस्ती, फ्रैन्ड्स कॉलोनी।

**वार्ड नं० 20 :-** शमशान घाट की उत्तरी सीमा नजदीक इन्दिरा विकास कॉलोनी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 की पश्चिमी सीमा से आरम्भ होकर दक्षिण-पूर्व की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 की पश्चिमी सीमा के साथ उस बिन्दू तक जहां यह पश्चिमी यमुना नहर के पश्चिम किनारे को काटती है, इसके पश्चात दक्षिण-पश्चिम की ओर पश्चिमी यमुना नहर के पश्चिम किनारे के साथ, रेलवे लाईन पार करके उस बिन्दू तक जहां यह सी.एस.एस.आर.आई. की उत्तरी सीमा पर मिलती है, इसके पश्चात पश्चिम की ओर, इसके पश्चात दक्षिण की ओर, इसके पश्चात पश्चिम की ओर, इसके पश्चात दक्षिण की ओर सी.एस.एस.आर.आई. की उत्तर-पश्चिमी सीमा के साथ उस बिन्दू तक जहां यह काछवा रोड पर मिलती है, इसके पश्चात पूर्व की ओर काछवा रोड पर उस बिन्दू तक जहां यह जरीफा वीरान जाने वाली सड़क पर मिलती है, इसके पश्चात उत्तर-पूर्व की ओर सी.एस.एस.आर.आई. की दक्षिणी सीमा के साथ उस बिन्दू तक जहां यह पश्चिमी यमुना नहर के पश्चिम किनारे पर मिलती है, इसके पश्चात दक्षिण की ओर उस बिन्दू तक जहां यह काछवा रोड नजदीक मेहता मैरिज पैलेस पर मिलती है, इसके पश्चात पश्चिमी यमुना नहर पार करके पूर्व की ओर काछवा रोड पर शमशान घाट के सामने तक, इसके पश्चात दक्षिण-पूर्व की ओर प्रेमनगर व रामनगर को विभाजित करने वाली सड़क पर नजदीक नवयुग पब्लिक स्कूल तक, इसके पश्चात दक्षिण-पश्चिम की ओर शांतिनगर की पूर्वी सीमा के साथ श्री ललित अग्नी मकान नं० 471, न्यू प्रेमनगर के विपरीत बिन्दू तक, इसके पश्चात दक्षिण-पश्चिम की ओर सामुदायिक भवन प्रेमनगर तक, इसके पश्चात पश्चिम की ओर शिव मन्दिर प्रस्तावित पश्चिम बाईपास तक, इसके पश्चात दक्षिण की ओर पश्चिमी यमुना नहर के पूर्वी किनारे के साथ और पश्चिमी यमुना नहर पार करके उत्तर-पश्चिम की ओर भाखड़ा कैनाल की दक्षिणी सीमा के साथ उस बिन्दू तक जहां यह नगर निगम, करनाल की सीमा पर मिलती है, इसके पश्चात पश्चिम की ओर गाँव सैदपुरा की दक्षिणी सीमा के साथ बिन्दू 'पी' तक जोकि कस्बा करनाल गाँव सैदपुरा व गाँव डबरी की राजस्व सीमाओं का त्रिकोणीय बिन्दू है, इसके पश्चात पूर्व की ओर गाँव सैदपुरा की उत्तरी सीमा के साथ भाखड़ा नहर पार करके बिन्दू 'क्यू' तक, इसके पश्चात भाखड़ा नहर की पूर्वी सीमा के साथ व भाखड़ा नहर की उत्तर-पश्चिमी सीमा के साथ बिन्दू 'आर' तक जोकि काछवा रोड व पुण्डरक रोड का पूर्वी कोना है, इसके पश्चात उत्तर की ओर पुण्डरक रोड की पूर्वी सीमा के साथ बिन्दू 'एस' तक जोकि किला नं० 1627 गाँव पुण्डरक का उत्तर-पश्चिमी कोना है, इसके पश्चात पूर्व की ओर किला नं० 1627, 1626 की उत्तरी सीमा के साथ किला नं० 1688 गाँव पुण्डरक बिन्दू 'टी' तक जोकि किला नं० 1688 का उत्तर-पश्चिमी कोना है, इसके पश्चात उत्तर की ओर जरीफा वीरान की पश्चिमी सीमा के साथ गाँव पुण्डरक, जरीफा वीरान व धौलगाढ़ की राजस्व सीमाओं के त्रिकोणीय बिन्दू तक, इसके पश्चात उत्तर की ओर उचाना गाँव की पश्चिमी सीमा के साथ बिन्दू 'यू' तक जोकि रेलवे लाईन, भैनी खुर्द रेलवे स्टेशन के आयत नं० 28 गाँव झंझाडी पर स्थित है, इसके पश्चात पूर्व की ओर रेलवे क्वार्टर की उत्तरी सीमा के साथ शमशान घाट नजदीक इन्दिरा विकास कॉलोनी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 की पश्चिमी सीमा तक जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है।

**सम्मिलित क्षेत्र:-**

सी.एच.डी. सिटी, धौलगाढ़, गाँधी नगर, जरीफा वीरान, न्यू नसीब पुरम्, पाल नगर, सैदपुरा, उचाना, विजय नगर, शान्ति नगर।

आनन्द एम. शरन,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।